



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड—1
PART I—Section—1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1979/साघ 9, 1900

No. 33] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1979/MAGHA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उत्पाद मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1979

नं. डी. सी. एच./ए. आई. एच. बी./77.—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं. डी. सी.
एच./ए. आई. एच. बी./77, दिनांक 22 दिसम्बर, 1978 द्वारा भूतपूर्व पाणिज्य मंत्रालय
(वस्त्र विभाग) संकल्प सं. 4/57/74-टैक्स-4 दिनांक 20 मई, 1976 के अधीन अखिल
भारतीय हथकरघा बोर्ड का पुनर्गठन किया था।

संकल्प सं. डी. सी. एच./ए. आई. एस. बी./77 दिनांक 12-12-1978 के द्वारा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के पहले से नियुक्त किये गये सदस्यों के अतिरिक्त दो और सदस्य जिनके नाम नीचे दिये गये हैं, नियुक्त किये गये हैं :-

1. श्री मन मल सोनी,
राधाकृष्णन मार्केट,
परिहारा चौक,
जबलपुर (मध्य प्रदेश)
2. श्री फजलुर्रहमान अंसारी,
पो. आ. मबारकपुर,
जिला आजमगढ़, (यू. पी.)

एम. ए. रंगास्वामी, विशेष सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th January, 1979

No. DCH/AIHB/77.—The Government of India had, vide their resolution No. DCH/AIHB/77 dated 22nd December, 1978, reconstituted the All India Handloom Board set up under the then Ministry of Commerce (Department of Textiles) Resolution No. 4/57/74-TEX-IV dated 20th May, 1976.

Two more members, as given below, have been appointed on the All India Handloom Board, in addition to the members already appointed, vide Resolution No. DCH/AIHB/77 dated 22nd December 1978 :

1. Shri Man Mal Soni,
Radhakrishnan Market,
Prehara Chowk,
Jabalpur (MP).
2. Shri Fazalur Rehman Ansari,
P.O. Mubarakpur,
District Azamgarh,
U.P.

M. A. RANGASWAMY, Special Secy.